

# प्रथम संकलित मूल्यांकन, 2015-2016

कक्षा-VIII

हिंदी

**समय-2½ घंटे ]**

**[पूर्णांक-60**

निर्देश (i) प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार दीजिए।

(ii) लिखावट एवं स्वच्छता पर ध्यान दीजिए।

**खंड-क (अपठित बोध)**

1. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुन कर दीजिए।  
1x5=5

जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दरजे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं नहीं किया जा सकता। गाय सिंग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किन्तु गधे को कभी क्रोध करते नहीं देखा न सुना।

(i) हम किसी आदमी को गधा कब कहते हैं?

(क) जब हम उसे जानवर बताना चाहते हैं

(ख) जब हम उसे परले दरजे का बेवकूफ बताना चाहते हैं

(ग) जब हम उसे सीधा बताना चाहते हैं

(घ) जब हम उसे बुद्धिमान बताना चाहते हैं।

(ii) गद्यांश में गाय को कैसा बताया गया है?

(क) सीधी

(ख) सींग मारने वाली गाय

(ग) गरीब

(घ) क्रोधी

(iii) गधे में क्या नहीं देखा जाता?

- (क) क्रोध करते हुए (ख) सींग मरते हुए  
(ग) गरीबी में (घ) सहिष्णुता  
(iv) 'बेवकूफ' का विलोम है-  
(क) बुद्धिमान (ख) बुद्धिमान  
(ग) कमजोर (घ) मजबूत  
(v) जानवरों में किसे सबसे बुद्धिमान समझा जाता है?  
(क) गाय (ख) कुत्ता  
(ग) घोड़ा (घ) गधा

2. निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए

विकल्पों से चुनकर लिखिए। 1x5=5

बस, थोड़ी और उल्लास

बस, थोड़ी और धूप

बस, थोड़ा और पानी

बस, थोड़ी और हवा

बस, थोरा भुरभुरापन

क्या देर है भला बहार आने में ?

आज मैं बीज हूँ

काल रहूँगा अंकुर

बटुर-बटुर आएगी दुनिया

मुझे देखने को आतुर

आज मैं बीज हूँ

अलक्षित, न-चीज हूँ

गर्क हूँ धरती कि जादुई कोख में ।

(i) बीज अंकुरित होने के लिए कौन सी चीज आवश्यक नहीं हैं?

(क) हवा (ख) पानी

(ग) धूप (घ) माली

(ii) अंकुरित होने के बाद बीज क्या बनता है?

(क) पेड़ (ख) फल

(ग) पौधा (घ) पत्ता

(iii) लोग किसे देखने आते हैं?

(क) बीज को (ख) अंकुर को

(ग) पौधे को (घ) फल को

(iv) 'क्या देर है भला आने में' पंक्ति का आशय क्या है ?

(क) अंकुर निकलने में बहुत देर है

(ख) अंकुर निकलने में देर नहीं है

(ग) अंकुर निकलने में देर भली है

(घ) अंकुर नहीं निकलेगा

(v) बीज कहा छिपा रहता है?

(क) अंकुर में (ख) हवा में

(ग) धरती कि कोख में (घ) पौधे में

### खंड-ख (व्यवहारिक व्याकरण )

3. निर्देशानुसार उत्तर दें-

(क) संज्ञा के कितने भेद हैं? 1

(ख) 'कक्षा में तीस छात्र है' वाक्य से विशेषण-विशेष्य अलग करें। 1

(ग) एक अनेकार्थी शब्द से दो अर्थों में वाक्य प्रयोग करें। 1

- (घ) 'इक' प्रत्यय से दो शब्द बनायें। 1
- (ड.) समास विग्रह कर समास का नाम लिखें। 1x2=2
- (i) चरम-परम
- (ii) लाभ-हानि
- (च) संधि विच्छेद करें। 1x2=2
- (i) पत्राचार
- (ii) रविन्द्र
- (छ) रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? 1x2=2
- (i) लोग धन के लिए भटकते हैं।
- (ii) गंगा हिमालय से निकलती है।

### खंड-ग(पाठ्य पुस्तक व पूरक पुस्तक)

4. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पुछे गये प्रश्नों के उत्तर दिए गये विकल्पों से चुनकर लिखें - 1x5=5

यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, सच्चाई केवल भीरु और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसे स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों कि आस्था ही हिलने लगी है।

1. श्रमजीवी कौन होते हैं?

(क) जो श्रम करके जीविका चलाते हैं

(ख) जो श्रम को जीते हैं

(ग) जो दूसरों पर जीते हैं

(घ) जो जीकर श्रम करते हैं

2. 'ईमानदारी' क्या है?

(क) सर्वनाम

(ख) क्रिया

(ग) विशेषण

(घ) भाववाचक संज्ञा

3. 'लोगों की आस्था हिलना' का क्या अर्थ है?

(क) विश्वास जमना

(ख) विश्वास डिगना

(ग) हिलते जाना

(घ) आस्थावान बनना

4. 'जीविका में किस प्रत्यय का प्रयोग है?

(क) जीव

(ख) बिका

(ग) इका

(घ) का

5. यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है?

(क) आस्था

(ख) निराशा

(ग) श्रमजीवी

(घ) क्या निराश हुआ जाए

5. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे।

2x5=10

(क) पत्र-लेखन की कला के विकास के लिए क्या-क्या प्रयास हुए ?

(ख) 'मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं' पंक्ति का अर्थ लिखिए ।

(ग) बस को देख कर लेखक को श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी ?

(घ) लेखक के अनुसार आज के समाज कौन-कौन सी बुराइयां दिखाई देती हैं ?

(ङ) लेखक ने लेख का शीर्षक 'क्या निराश हुआ जाए' क्यों रखा होगा?

6. काव्यांश को पढ़ कर पूछे गये प्रश्नों के उत्तर दीजिए -

1x5=5

पक्षी और बादल

ये भगवान के डाकिये हैं

जो एक महादेश से

दूसरे महादेश को जाते हैं

हम तो समझ नहीं पाते है,  
मगर उनकी लायी चिट्ठियाँ  
पेड़,पौधे पानी और पहाड़  
बांचते है।

हम तो केवल यह आंकते है  
कि एक देश कि धरती  
दूसरे देश को सुगंध भेजती है ।

- (क) कवि और कविता का नाम लिखिए।  
(ख) भगवन के डाकिए किन्हें कहा गया है?  
(ग) ये डाकिए कहाँ से कहाँ तक जाते है?  
(घ) इन डाकियों की लायी चिट्ठियों को कौन पढता है ?  
(ङ) इनकी लाई चिट्ठियों में क्या सन्देश होगा ?

**7. प्रश्नों के उत्तर लिखिए -**

**2x3=6**

- (क) दीवाने टिक कर क्यों नहीं बैठते ?  
(ख) 'यह सबसे कठिन समय नहीं है' कविता हमें क्या सन्देश देती है ?  
(ग) कबीर साधु की जाति पूछने को क्यों मना करते है?

**8. पूरक पुस्तक के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें -**

**2x2=4**

- (क) अंग्रेजी शासन में भारत के किसानों की समस्याएं कौन-कौन सी है ?  
(ख) बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएँ क्या थी?

9. दिए गये किसी एक विषय पर निबंध लिखों ।

5

(लगभग 150 शब्दों में )

(क) स्वतंत्रता दिवस

(ख) रक्षा बंधन

(ग) प्रदूषण एक समस्या

(घ) मेरा प्रिय अध्यापक

10. कुसंगति की हानियां बताते हुए छोटे भाई/बहन को पत्र लिखिए ।

5

अथवा

विद्यालय में पीने के पानी की उचित व्यवस्था हेतु प्राचार्य को आवेदन-पत्र लिखिए ।